

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 20 सितंबर 2022

### प्रश्न -1

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित डिजिटल वॉयस एजेंट लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने Skit.ai के साथ साझेदारी की?

- A) कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस
- B) ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस
- C) एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस
- D) बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस

**सही उत्तर: B**

निजी गैर-जीवन बीमा कंपनी ICICI लोम्बार्ड ने AI-आधारित वॉयस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म Skit.ai के सहयोग से AI-संचालित डिजिटल वॉयस एजेंट लॉन्च किया।

### प्रश्न -2

साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गूगल ने Mandiant Inc. को कितनी राशि में खरीदा?

- A) 2.8 बिलियन अमरीकी डॉलर
- B) 3.6 बिलियन अमरीकी डॉलर
- C) 4.1 बिलियन अमरीकी डॉलर
- D) 5.4 बिलियन अमरीकी डॉलर

**सही उत्तर: D**

गूगल ने हाल ही में घोषणा की है कि साइबर सिक्योरिटी फर्म Mandiant को खरीदने के लिए उसकी प्रस्तावित 5.4 बिलियन डॉलर की बोली अब पूरी हो गई है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 20 सितंबर 2022

### प्रश्न -3

'रजनीज मंत्राज: लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट-लव्ड सुपरस्टार' नामक एक नई पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी?

- A) विकास बंसल
- B) पी.सी. बालसुब्रमण्यन
- C) जेसिका लिविंगस्टन
- D) दिलीप सांघवी

**सही उत्तर: B**

उद्यमी-सह-लेखक पी.सी. बालसुब्रमण्यन ने 'रजनीज मंत्राज: लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट-लव्ड सुपरस्टार' शीर्षक से एक नई किताब लिखी है।

### प्रश्न -4

भारत में हिंदी दिवस कब मनाया गया?

- A) 15 सितंबर
- B) 14 सितंबर
- C) 12 सितंबर
- D) 11 सितंबर

**सही उत्तर: B**

हिंदी भाषा के महत्व और संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 20 सितंबर 2022

### प्रश्न -5

G20 प्रेसीडेंसी के दौरान भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है?

- A) बांग्लादेश
- B) चिली
- C) उत्तर कोरिया
- D) श्रीलंका

**सही उत्तर: A**

भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश को G20 बैठक में भाग लेने के लिए अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा।

### प्रश्न -6

\_\_\_\_\_ इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (e-BG) जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया।

- A) एक्सिस बैंक
- B) HDFC बैंक
- C) इंडसइंड बैंक
- D) यस बैंक

**सही उत्तर: B**

HDFC बैंक नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (e-BG) जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 20 सितंबर 2022

### प्रश्न -7

निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल ने 'पर्वत प्रहार' अभ्यास किया?

- A) रक्षा सुरक्षा कोर
- B) भारतीय वायु सेना
- C) भारतीय सेना
- D) भारतीय नौसेना

**सही उत्तर: C**

पर्वत प्रहार का आयोजन हाल ही में लद्दाख में भारतीय सेना के वन स्ट्राइक कोर द्वारा किया गया था।

### प्रश्न -8

पहला ईयू-इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था?

- A) बिजली मंत्रालय
- B) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- C) गृह मंत्रालय
- D) विदेश मंत्रालय

**सही उत्तर: B**

यह कार्यक्रम यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और हाइड्रोजन यूरोप के निकट सहयोग में आयोजित किया गया था।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 20 सितंबर 2022

### प्रश्न -9

किसकी जयंती भारत में इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है?

- A) सी.वी. रमन
- B) डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम
- C) एम. विश्वेश्वरैया
- D) सर्वपल्ली राधाकृष्णन

**सही उत्तर: C**

महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की उपलब्धियों को पहचानने और सम्मान देने के लिए भारत हर साल 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाता है।

### प्रश्न -10

\_\_\_\_\_ विश्व चैंपियनशिप में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनीं।

- A) बबीता कुमारी
- B) गीता फोगट
- C) रितु फोगट
- D) विनेश फोगट

**सही उत्तर: D**

विनेश फोगट हाल ही में सर्बिया के बेलग्रेड में 53 किलोग्राम वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं।